



EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/

Office of the Chief Personnel Officer

द्वितीय तल, - 751 017

Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No. 60/2017

पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/Rectt.

Date: 22.06.2017

सेवा मे,

सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर

मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,

मु.कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,

व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर

महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,

महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए


विषय /Sub: Adoption of uniform guidelines for procedures followed in compassionate appointment cases.

पूतरे के विषय क्रमांक/ECOR's Subject Serial No.- RECT-7/2017

उपर्युक्त विषय पर पत्र सं- EcoR/Pers/Rectt/Comp.Appt/Policy/EA दिनांक 06.06.2017 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of this Office Lr's No. EcoR/Pers/Rectt/Comp.Appt/Policy/EA dated- 06.06.2017 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,


(M.Ganga Bhawani)

Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र. अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)
- 5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.-1),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण), सहा.कार्मिक अधि.(बिल), सहा.कार्मिक अधि

EAST COAST RAILWAY

Office of the
Chief Personnel Officer
Rail sadan, Chandrasekharapur,
Bhubaneswar-751017

No. ECoR/Pers/Rectt/Comp.Appt/Policy/EA

Date: 06.06.2017

All HODs/ECoR/BBS,
DRM/Sr.DPO/DPO-KUR,WAT,SBP,SPO(Con)/VSKP
CWM/WPO- MCS, Addl.Register/RCT, SPO(Con)/BBS
Genl.Secy/ECoRSC,ECoRSU, AIOBCREA,AISCSTREA.

Sub: Adoption of uniform guidelines for procedures followed in compassionate appointment cases.

Ref: This office letter No.ECoR/Pers/Rectt/Comp.Appt/Policy/EA, dated. 05.08.2016
(Estt.Srl.No.109/2016)

In connection with the above, references had been received from various units seeking clarification on the subject.It has been decided by the Competent Authority to partially modify Para (viii) of the said policy circular.Accordingly, the following points may be added to the existing policy.

(viii) (a) When a candidate appears for JE Test for GP 4200/- but fails to secure 60% and secures 50 % and above, he being a graduate basically, can be considered for posts like ECRC, Goods Guard, Sr.Clerk etc., in GP 2800/- for which minimum educational qualification is graduation, without appearing any further examination. However, appointment to the clerical post i.e. Sr.Clerk would require approval of the General Manager as per extant instructions.

(viii) (b) Further, he can also be posted as Technician.Gr.III, if he himself desires to work in any technical post.

This has the approval of CPO/ECoR/BBS.


(L.Prem Kumar)
Chairman/RRC
For Chief Personnel Officer

- Copy to:** 1) Secy to GM/ECoR/BBS: for kind information of GM/ECoR
2) PS to AGM/ECoR/BBS: for kind information of AGM/ECoR.
3) SDGM/ECoR/BBS: for kind information
4) Dy.CPO(Gaz), Dy.CPO(IR&W), SPO(Staff),SPO(HQ& Court),SPO(Engg)
5) OS/Ruling- for circulation of the policy.